



ISSN : 2231-167X (Print) || IMPACT FACTOR: (Cosmos 7.866 & I2OR 5.675)

## INSPIRA- JOURNAL OF MODERN MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP

(A National Multidisciplinary bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)

Volume 16

No. 01 (I)

January – March, 2026

### CONTENTS

1	The Evolution of Corporate Social Responsibility in the Digital Age: From Philanthropy to Digital Ethics <b>Dr. Pragya Dheer</b>	01-08
2	A Comprehensive Review of Consumer Preferences and Buying Behavior in the Automobile Sector: Trends, Challenges, and Future Directions <b>Mr. Chandan Sharma &amp; Dr. Akshita Jain</b>	09-14
3	A Study on Importance of Employee Branding or Branding Strategy with Reference to Vadodara City <b>Dr. Ritesh Amarsela &amp; Prof. Shruti Mehta</b>	15-19
4	Environmental Awareness through Folk Literature and Oral Traditions in South Rajasthan <b>Rajani Meena</b>	20-28
5	My Frozen Turbulence in Kashmir: Governance, Conflict and Policy in a Troubled Land <b>Bhagirath Prasad Meena</b>	29-33
6	Reshaping the Future of Management Practices for Viksit Bharat 2047 through Artificial Intelligence <b>Dr. Neelam Sethi</b>	34-38
7	Talent Acquisition and Employer Branding in Competitive Markets <b>Nikhila Pulivarthi &amp; Dr. D. Sundari</b>	39-46
8	A Study on Consumer Perception through Social Media Marketing of Food and Beverage Enterprises in Chennai City <b>S. Pagampriyal &amp; Dr. SP. Mathiraj</b>	47-53
9	Impact of Visual Merchandising on Consumer Behaviour towards Women Apparels in Kerala State <b>Mrs. A Shyma Beevi &amp; Dr. S.Nazeer Khan</b>	54-62
10	मत्स्य क्षेत्र के दुर्गों का धार्मिक पर्यटन (करौली के विशेष संदर्भ में) <b>डॉ. अर्चना तिवारी एवं धर्मराज मीना</b>	63-68

11	The Impact of NCC Training on Adolescent Academic and Personal Development <b>Durga Prasad, Khevna Parmar &amp; Mitanshu Patadiya</b>	69-74
12	Evolution of Digital Currencies in Global Financial Markets <b>Dr. Jai Parkash Parewa</b>	75-81
13	उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव <b>चेतन लाल रेगर एवं दुर्गा लाल रेगर</b>	82-86
14	'नूरजहाँ जुंटा': पितृसत्तात्मक इतिहास—लेखन, साहित्यिक आख्यान एवं ऐतिहासिक यथार्थ का एक पुनर्मूल्यांकन <b>श्री धर्म पाल एवं डॉ. महेश चंद्र</b>	87-91
15	A Study on Women's Work Participation and Entrepreneurship in the Small Scale Industrial Sector Contributing in Indian Economy <b>Dr. Sushma Tiwari &amp; Dr. Sumona Bhattacharya</b>	92-98
16	ESG Disclosure and Corporate Accountability: An Analysis of Listed Companies <b>Ms. Kanimozhi K &amp; Dr. C. Vethirajan</b>	99-104
17	An Empirical Study on Innovation and Sustainability Performance of Green Startups and Sustainable Entrepreneurship <b>Ms. Anjuka. M &amp; Dr. K. Ganesamurthy</b>	105-111
18	A Critical Analysis of the Proposed New Income Tax Code 2025 in Comparison with the Income Tax Act 1961 <b>Ramakant Sharma &amp; Prof. Prerna Jain</b>	112-124
19	डिजिटल मीडिया: आदिवासी महिलाओं के सामाजिक—आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम <b>विजय सिंह</b>	125-134
20	जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह राठौड़ के भक्ति—काव्य का विश्लेषणात्मक अनुशीलन: नाथ संप्रदाय एवं आध्यात्मिक समन्वय के परिप्रेक्ष्य में <b>श्री लाखम सिंह एवं डॉ. शिव चरण शर्मा</b>	135-139
21	राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों की उपयोग प्रवृत्तियां – एक अध्ययन (टोंक जिले के संदर्भ में) <b>महेन्द्र कुमार मीणा एवं डॉ. पवन वर्मा</b>	140-144
22	राजस्थान के बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण – एक अध्ययन <b>राकेश मीणा एवं प्रो.(डॉ.) पंकज कान्त दीक्षित</b>	145-148